

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बाँका-1

Email ID- ee.bankal@gmail.com

SL-NO
257

पत्रांक- 16263/2022 / बाँका,

दिनांक- 20.09.2022

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल बाँका-1 ।

सेवा में,

शाखा,
Bank of Baroda,
Banka.

विषय - Fixed Deposit/ Bank Guarantee का सत्यापन एवं प्रतिज्ञिप्त होने की पुष्टि के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि संवेदक द्वारा एकरारनामा कार्य हेतु आपकी शाखा से निर्गत एवं अधोहस्ताक्षरी के नाम प्रतिज्ञिप्त Fixed Deposit/ Bank Guarantee समर्पित किया गया है जिसकी विवरणी निम्नवत है-

1. संवेदक का नाम- M/s Balaji Construction

2. कार्य का नाम- Package No.- MR-N/22-23 Banka-1/05

Sl.No.	Tender ID/ Bid ID	F.D. A/c No. & B.G. No.	Validity Date	Amount
1	117304 / 504485	FD A/c No.- 35580300007786	28.03.2024	579000.00
2		FD A/c No.- 35580300007785	28.03.2024	1830000.00
3		FD A/c No.- 35580300007382	25.04.2025	530000.00
Total -				2939000.00

कृप्या इसका सत्यापन करते हुए इसे अधोहस्ताक्षरी के नाम प्रतिज्ञिप्त होने की पुष्टि करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

Dear Sir
All FDR are
under Lien
marked



CC

20/9/22

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल बाँका-1



Pledge- E.E.R.W.S. WORKS. DIV. BANKA-1.



बैंक ऑफ बड़ोदा
Bank of Baroda
Baroda International Bank

बचत पुष्टि सूचना / Deposit Confirmation Advice

M/S BALAJEE CONSTRUCTION

AT BANGAMA PO RANGA
PS BALHAR DIST BANKA
813104
INDIA



सावधि खाता क्र./ FD A/c No	35580300007786
सावधि सूचना क्र./ FD Advice No	FDR2009225440
कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No	DXS001294
व्यवहार खाता / Linked Operative a/c	35580400000113
शाखा का नाम/Branch Name	BANKABIHAR

योजना / Scheme	BARODA TIRANGA DEPOSIT SCH
नामांकन / Nomination	N
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.	
पैन नंबर / PAN No.	AAIFB2783M
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	SELF
लियन चिह्नित / Lien Marked	N

संयुक्त धारक / Joint Holder (s)	
अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)	

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	व्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
579000	20-09-2022	6.00	0 Months 555 Days	28-03-2024	633934

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) / Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्त/Terms & Conditions:

1. व्याज दर प्रतिशत में वार्षिक है। 2. स्वतः नवीकरण क्लॉज : i). यदि अन्यथा अनुदेश न दिये हो तो 1 वर्ष व इससे अधिक अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित व्याज दरों के अनुरूप 1 वर्ष के लिए किया जाएगा. ii). कोई निर्देश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण देय तारीख पर प्रचलित व्याज दरों के अनुरूप इतनी ही अवधि के लिए किया जाएगा. 3. फॉर्म 15 जी और 15 एच सिर्फ निवासी खातों के लिए है. 4. निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15 जी/15 एच/15 एए (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा स्रोत पर कर कटौती की जाएगी. 5. फॉर्म 15 एच केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किए जाएंगे. 6. परिपक्वता आहरण क्लॉज : i). 1 करोड़ तक की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1% पेनल्टी लागूगी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके कांटे रेट से 1% कम. ii) 1 करोड़ से अधिक की की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण (निकासी) पर 1.5% पेनल्टी लागूगी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके कांटे रेट से 1.5% कम। 1 करोड़ से अधिक की की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसके आहरण के लिए बैंक को कम से कम 31 दिन पूर्व सूचना दी जानी है.	1. Rate of Interest is in percentage per annum. 2. Automatic Renewal Clause : i) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. ii) For Deposits Issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise. 3. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only. 4. A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted. 5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more) 6. Premature Withdrawal Clause : i). Premature withdrawal of deposit upto 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. ii) Premature withdrawal of deposit above 1 crore will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit above 1 crore, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.
---	---

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature



Scanned with OKEN Scanner

Pledge EERWD WORKS DIV BANKA-1
LTRNO-738 / DTD-25/04/22



25/04/2022
Deposits Confirmation Advice

M/S BALAJEE CONSTRUCTION		खाता सं./ FD A/c No	35580300007382
AT BANGAMA PO RANGA		खाता सूचना सं./ FD Advice No	FDR2504222013
PS BALHAR DIST BANKA		कस्टमर आईडी सं./ Customer ID No	DX6001294
813104		व्यवहार खाता / Linked Operative a/c	35580400000113
INDIA		शाखा का नाम/Branch Name	BANKABIHAR

योजना / Scheme	FIXED DEPOSIT - BIRD(RES)	संयुक्त धारक / Joint Holder (s)
नामांकन / Nomination	N	
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.		अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)
पैन नंबर / PAN No.	AAIFB2783M	
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	PROPRIETOR	
लियन चिह्नित / Lien Marked	N	

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	ब्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
530000	25-04-2022	5.20	36 Months 0 Days	25-04-2025	618855

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) / Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. ब्याज दर प्रतिशत में वार्षिक है।	1. Rate of Interest is in percentage per annum.
2. स्वतः नवीकरण क्लॉज :	2. Automatic Renewal Clause
i). यदि अन्यथा अनुदेश न दिये हो तो 1 वर्ष से इससे अधिक अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण दैनिक तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप 1 वर्ष के लिए किया जाएगा.	i) For Deposits issued for a period of 1 year and above, Deposits will be renewed for 1 year at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
ii). कोई निर्देश न दिए जाने पर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए की गई जमा राशि का नवीकरण दैनिक तारीख पर प्रचलित ब्याज दरों के अनुरूप इसकी अवधि के लिए किया जाएगा.	ii) For Deposits issued for a period of less than 1 year, Deposits will be renewed for the same period at the prevailing rate of interest on the due date if not instructed otherwise.
3. फॉर्म 15G और 15H एक सिर्फ निवासी खातों के लिए है।	3. Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only.
4. निवासी व्यक्तियों द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15जी/15एच/15ए (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा स्रोत पर कर कटौती की जाएगी.	4. A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, failing which TDS will be deducted.
5. फॉर्म 15एच केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किए जाएंगे.	5. Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more)
6. परिपक्वता आहरण क्लॉज :	6. Premature Withdrawal Clause
i) 1 करोड़ तक की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसकी आहरण (निवासी) पर 1% पेनल्टी लगानी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके कोई रेट से 1% कम	i) Premature withdrawal of deposit upto 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank.
ii) 1 करोड़ से अधिक की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसकी आहरण (निवासी) पर 1.5% पेनल्टी लगानी अर्थात् जमा किए जाने की तारीख से जितनी अवधि तक बैंक में राशि रही उसके कोई रेट से 1.5% कम। 1 करोड़ से अधिक की जमा राशि की परिपक्वता अवधि से पूर्व इसकी आहरण के लिए बैंक को कम से कम 31 दिन पूर्व सूचना दी जानी है।	ii) Premature withdrawal of deposit above 1 crore will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit above 1 crore, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature

2-251



बैंक ऑफ बरोडा
Bank of Baroda
INDIA'S INTERNATIONAL BANK

Pledge → E.E.R.W. WORKS DIV BANKA-1

अवधि पुष्टि सूचना / Deposit Confirmation Advice

M/S BALAJEE CONSTRUCTION		सावधि खाता क्र./ FD A/c No	35580300007785
AT BANGAMA PO RANGA PS BALHAR DIST BANKA 813104 INDIA		सावधि सूचना क्र./ FD Advice No	FDR2009225504
		कस्टमर आईडी क्र./ Customer ID No	DXS001294
		व्यवहार खाता / Linked Operative a/c	35580400000113
		शाखा का नाम/Branch Name	BANKABIHAR
योजना / Scheme	BARODA TIRANGA DEPOSIT SCH	संयुक्त धारक / Joint Holder (s)	
नामांकन / Nomination	N	अभिभावक का नाम (यदि खाताधारक अवयस्क है) / Guardian Name (If a/c holder is minor)	
नामिती पंजीकरण क्रमांक / Nominee Registration No.			
पैन नंबर / PAN No.	AAIFB2783M		
परिचालन पद्धति / Mode of Operation	SELF		
लियन चिह्नित / Lien Marked	N		

जमा राशि / Deposit Amount	जारी करने की तिथि / Date of Issue	ब्याजदर / Rate of Interest	जमा की अवधि / Tenure of Deposit	परिपक्वता तिथि / Maturity Date	परिपक्वता मूल्य / Maturity Value*
1830000	20-09-2022	6.00	0 Months 555 Days	28-03-2024	2003625

*परिपक्वता मूल्य टीडीएस के अधीन (वर्तमान आयकर नियमों के अनुसार) Maturity Value is subject to TDS (as per current Income Tax rules)

नियम व शर्तें/Terms & Conditions:

1. ब्याज दर प्रतिशत में वार्षिक है।
 2. स्वतः नवीकरण क्लॉज :
 3. फॉर्म 15 जी और 15 एच सिर्फ निवासी खातों के लिए है।
 4. निवासी व्यक्ति/द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में इसकी निर्धारित सीमा पूरा होने से पूर्व एक नया 15 जी/15 एच/15 एए (यदि लागू हो) प्रस्तुत किया जाए, अन्यथा स्रोत पर कर कटौती की जाएगी।
 5. फॉर्म 15 एच केवल वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक उम्र) से ही स्वीकार किए जाएंगे।
 6. परिपक्वता आहरण क्लॉज :
 7. कस्टमर आईडी क्र. 813104
1. Rate of Interest is in percentage per annum.
 - Automatic Renewal Clause :
 - Form 15G and 15H is applicable to Resident accounts only.
 - A fresh 15G/ 15H/ 15AA (if applicable) has to be submitted by Resident individuals for each Financial Year, prior to crossing the threshold limit, till which TDS will be deducted.
 - Form 15H can be accepted only from senior citizens (age of 60 years or more).
 - Premature Withdrawal Clause :
 - Premature withdrawal of deposit upto 1 crore will attract 1% penalty i.e. 1% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank.
 - Premature withdrawal of deposit above 1 crore will attract 1.5% penalty i.e. 1.5% less than card rate as on the date of deposit, for the period for which deposit has remained with Bank. For premature withdrawal of deposit above 1 crore, a withdrawal notice of minimum 31 days prior to withdrawal of deposit is to be given to Bank.

Please note, this is a system generated advice and does not require any signature



Scanned with OKEN Scanner